

KENDRIYA VIDYALAYA NO.2, AFS PUNE - 411032

APPLICATION FORM FOR ADMISSION TO CLASS XI (2021-22) REGN NO. :

01. Name of the Student _____

02. Name of the Father / Guardian _____
Name of Mother _____
Department of Parent/Guardian _____
& Rank/ Designation _____

03. Address for correspondence with _____
Telephone No./Mobile no. _____

04. Category- GEN/OBC/SC/ST:

Physically Handicapped Yes No
(Enclose Certificate from Competent Authorities)

05. Whether participated in Games & Sports Meet Yes No

Scout & Guides Yes No
give details: _____

06. a) Name of Examination last passed with year _____
b) Name of Examining Board _____
c) Name of the school last attended _____

07. A. Details of Marks/Grades obtained in Board Examination:

ENGLISH		HINDI/SANS		MATHS		SCIENCE		SOCIAL SCI.		Aggregate Percentage
Marks obtain	Grade	Marks obtain	Grade	Marks obtain	Grade	Marks obtain	Grade	Marks obtain	Grade	

08. Academic Streams Available

I. Compulsory Subjects : a) ENGLISH

II. ELECTIVES

- A. Maths, Physics, Chemistry, Computer Science
- B. Maths, Physics, Chemistry HINDI
- C. Maths, Physics, Chemistry, Biology
- D. Hindi, Physics, Chemistry, Biology
- E. Accounts, B. Studies, Economics, Hindi
- F. Accounts, B. Studies, Economics IP

Stream for which admission is requested :

Give Preference (any two) from above A, B, C ,D,E andF (compulsorily)

(1) _____ (2) _____

(FEES ONCE PAID WILL NOT BE REFUNDED UNDER ANY CIRCUMSTANCES)

(Date)

(Sign. of student)

(Sign. of Parent)

ADMISSION SHALL BE GRANTED AS PER PRIORITY AND RULES OF KVS

Remarks by Principal (Stream Allowed)

Mast/Kum. _____ admitted to _____ stream

(Date)

(Sign. of Adm. In-charge)

(Sign of Principal)

SCIENCE STREAM:- MINIMUM 60 %

COMMERCE STREAM :- MINIMUM 55 %



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

REG. NO.

क्रम सं./ S.No.

वर्ष/ Year

पंजीकरण के लिए कक्षा/ Registration for class.....(Put tick mark in appropriate box)

प्रथम पाली

या

OR

द्वितीय पाली

1. विद्यार्थी का पूरा नाम/ Name of child in full (in Capital Letters)..... Sex M/F

2. जन्म तिथि (अंकों में)/
Date of Birth in Figures

शब्दों में/ In words

आयु 31.3. तक

Age as on 31.3.

3. बच्चे का रक्त समूह
Blood Group of the child

4. छात्र की श्रेणी/ The category to which child belongs

Gen. Cat.

सामान्य श्रेणी

SC

अनु० जाति

ST

अनु० जन जाति

OBC

ओ०बी०सी०

EWS

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

BPL

बी.पी.एल.

Disabled

विकलांग

SG Child

इकलौती कन्या

5. क्या आप अनुसूचित जाति / जनजाति / ओ.बी.सी. से / आर्थिक रूप से कमजोर / बी.पी.एल. / विकलांग / इकलौती कन्या यदि हां तो प्रमाण - पत्र संलग्न करें।
Whether the child belongs to (SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G. Category) Please Attach relevant certificate.

6. माता-पिता का ब्योरा/Details of Mother/ Father

माता/Mother

पिता/Father

(i) नाम/ Name (in Capital letters)

(ii) राष्ट्रियता/ Nationality.....

(iii) व्यवसाय/ Occupation

(iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष/Name of Office and full address with Telephone Number

(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full Residential Address with Telephone Numbers (with proof)

(vi) विद्यालय से दूरी/ Distance from KV

(vii) स्थाई पता/ Permanent Address

(viii) मूल वेतन/ Basic Pay

(ix) 31.3.20.... तक सेवाकाल के दौरान 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या/ No. of Transfers during last 7 years as on 31.3.20.... of the year

(x) अभिभावक की श्रेणी रक्षा/केन्द्रीय कर्मी/स्वायत्तशासी व अन्य/ Category to which the Parent belong to Defence/Central Govt./ Autonomous body & other

(xi) Employee Code :

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।
I Certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

तिथि/ Date :

माता/पिता के हस्ताक्षर/ Signature of Parent

पूरा नाम/ Full Name.....



पावती/ Acknowledgement

पंजीकरण संख्या/

Registration No.

क्रम सं./S.No.

श्री/श्रीमती

से उनके पुत्र/पुत्री

का कक्षा

में प्रवेश हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त किया।

Received an application from Shri/Smt.....for registration of her/ his son/ daughter.....for admission to Class

तिथि/ Date :

Note : 1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants.
2. A self-declaration from the parent for distance may also be accepted by furnishing an undertaking to this effect.

प्राचार्य/ Principal
केन्द्रीय विद्यालय (मोहर) Kendriya Vidyalaya (Stamp)

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----
----- कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....is working as regular employee in the office/Ministry of He/She is a regular employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in India.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of office _____

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार/State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----
-----कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... is permanently working in the office/Ministry of and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in State.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of office _____

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____ (कार्यालय),
 एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.2015 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे
 _____ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-
 I, _____ (Name) _____ (rank/ designation) of _____ (office), do
 hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2015) I have been transferred _____
 times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

में जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए
 अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for
 admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
 Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____
 (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही
 पाया गया है।
 I, _____ (name) _____ (rank/designation) of _____
 (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in
 the office and found correct.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
 (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
 Signature of Head of the Office
 (With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____
 दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
 Complete address and Telephone No. of office _____

टिपणी/Note-

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।
 Minimum period of posting/stay at a place should be minimum six months.

5. माता-पिता का विवरण/Details of Mother/ Father -

क्र. स.		माता/ Mother	पिता/Father
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/Name (in Capital letters)		
(ii)	राष्ट्रीयता/Nationality		
(iii)	व्यवसाय/Occupation		
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष Name of Office and full address and Telephone number.		
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full residential address and Tel. no. (with poof)		
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी.में)/ Distance from KV (in km) *		
(vii)	मूल वेतन/Basic Pay		
(viii)	स्थानांतरणों की संख्या No. of Transfers **		
(ix)	माता-पिता की श्रेणी Category of the Parent #		
(x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो)Employee Code (if any)		

* विद्यालय से आवास की दूरी। दूरी के लिए माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र मान्य है। आवास प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।

Distance of Residence from Vidyalaya. Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of Residence is compulsory.

** 31.03.2015 तक पिछले सात वर्ष में स्थानांतरणों की संख्या/ No. of transfers during last 7 years as on 31.3.2015.

1. केन्द्रीय सरकार/Central Govt 2. केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of Central Govt. 3. राज्य सरकार/ State Govt.

4. राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of State Govt. 5. अन्य/Others

मैं एतद द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।

I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

Signature of Mother/Father/Guardian

दिनांक/ Date:

पूरा नाम/Full Name.....

क्र. स./S. No.

पावती/Acknowledgement

सत्र/Session – 2015-16

पंजीकरण संख्या/Registration No.

श्री/श्रीमतीसे उनके पुत्र/पुत्रीका कक्षामें प्रवेश हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया।

Received an application from Shri/Smt..... for registration of her/ his son/ daughter.....for admission to class.....

प्राचार्य/ Principal

तिथि/ Date.....

केन्द्रीय विद्यालय (मोहर) Kendriya Vidyalaya (Stamp)

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE
(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी ----- स्वर्गीय
श्री/श्रीमती -----के पुत्र/पुत्री हैं जो -----
(कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में
दिनांक -----को हो गया था।

Certified that Master/Miss _____ is the son/daughter of Late Sh./Smt.
_____ who was regular employee of _____
(Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on _____ (date).

स्थान/Place _____
दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____